



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 68]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGHA 4, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

का.आ. 81(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	श्री रामचन्द्र एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट, सं० 20, श्री सी०वी०रमन रोड,	श्री रामचन्द्र कैंसर चिकित्सा तथा अनुसंधान केन्द्र हेतु भवन निर्माण,	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल

	अलवारपेट, चेन्नई-600018	उपस्करों, कंप्यूटरों, एम्बूलेन्स, वाहनों, वातानुकूलितों आदि की खरीद । अनुमानित लागत 31.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 102.02 करोड़ रुपए ।	तीन वर्षों के लिए 31.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 102.02 करोड़ रुपए ।
2.	जैवियर इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, पोस्ट बॉक्स सं07, पुरुलिया रोड, राँची (झारखंड) ।	एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रभावी ग्राम सभा, प्रजनन स्वास्थ्य कार्मिक को प्रशिक्षण, ई डी पी तथा डी आर सी फ़ैकल्टी क्वार्टरों के लिए आवासीय परियोजना, मुस्तफी लॉज पुनर्स्धार परियोजना । अनुमानित लागत 7,99,49,030.	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 6.99 करोड़ रुपए ।
3.	रतूलिया पल्ली बिकास केन्द्र, ग्राम रतूलिया मेदिनीपुर, पो0 ओ0 रतूलिया, जिला मिदनापुर (पूर्व) पश्चिम बंगाल ।	विवेकानन्द नेत्र सुरक्षा अस्पताल भवन का निर्माण, फर्नीचर, उपस्करों, एम्बूलेन्स आदि की खरीद । अनुमानित लागत 30.58 लाख रुपए ।	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 30.58 लाख रुपए ।
4.	चाइल्डलाइन इंडिया फाउन्डेशन, द्वितीय तल, नानाचौक म्यूनिसिपल स्कूल, फ़ेरे ब्रिज लॉ लेवल, निकट ग्रान्ट रोड स्टेशन, मुम्बई -400007.	चाइल्डलाइन इंडिया फाउन्डेशन, अनुमानित लागत 2,66,00,000 रुपए ।	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2,66,00,000 रुपए ।
5.	श्री काँची कामकोटि पीतम चेरिटेबल ट्रस्ट, 1ए, राजा अन्नामलाई भवन, द्वितीय तल, 19, मार्शल रोड, चेन्नई-600008.	300 बिस्तर वाले अस्पताल का पुनर्स्धार तथा इसका विस्तार, अनुमानित लागत 2140.84 लाख रुपए ।	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2140.84 लाख रुपए ।

6.	सेन्ट जोसफ लेप्रोसी पेशन्ट सोसाइटी, पो0बा0 सं0-2, कलासापक्कम-606751, तिरुवन्नामलाई जिला, तमिलनाडु ।	एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना, अनुमानित लागत 5.00 करोड़ रुपए ।	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 5.00 करोड़ रुपए ।
7.	प्रोग्राम स्पोर्ट यूनिट फाउन्डेशन (पी एस यू फाउन्डेशन) 4- रफी अहमद किदवई मार्ग, केन्टोन्मैन्ट, लखनऊ-226002.	जल तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एकीकृत परियोजना; उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वन तथा वन के किनारे-किनारे रहने वालों के संदर्भ में जीविका तथा ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना । अनुमानित लागत 380.19 ।	वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 45.62 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 380.19 करोड़ रुपए ।

2. यह अधिसूचना उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 13/2005/फा० सं० एन०सी०-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2005

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sri Ramachandra Educational and Health Trust, No. 25, Sri C.V. Raman Road, Alwarpet, Chennai - 600018.	Construction of building, purchase of equipments, computers, ambulance, vehicles, air conditioners etc for Shri Ramachandra Cancer Care and Research Centre at an estimated cost of Rs.102.02 crores including a corpus fund of Rs.31.00 crores.	Rs. 102.02 crores including a corpus fund of Rs.31.00 crores for Financial Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 i.e for three years only.
2	Xavier Institute of Social Service, Post Box No. 7, Purulia Road, Ranchi (Jharkhand).	Integrated Community Development Programme Effective Gram Sabha, Training of Reproductive Health Personnel, Project for housing EDP and DRC faculty quarters, Project for renovation of Mustafi lodge at an estimated cost of Rs.7,99,49,030.	Rs. 6.99 crores for Financial Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 i.e for three years only.
3	Ratulia Palli Bikash Kendra, Village Ratulia Medinipur, PO Ratulia, District Midnapore (East), West Bengal.	Construction of Vivekananda Eye Care Hospital Building, purchase of equipments, furniture, ambulance etc. at an estimated cost of Rs.30.58 lakhs.	Rs. 30.58 lakhs for Financial Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 i.e for three years only.
4.	Childline India Foundation, 2 nd Floor, Nanachowk Municipal School, Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station, Mumbai - 400007.	Childline India Foundation at an estimated cost of Rs. 2,66,00,000.	Rs. 2,66,00,000 for Financial Years 2004-05, 2005-06 and 2006-07 i.e for three years only.
5.	Sri Kanchi Kamakoti Peetam Charitable Trust, 1A,Raja	Renovation of 300 bedded hospital and its expansion at an estimated	Rs. 2140.84 lakhs for Financial Years 2004-05, 2005-06 and 2006-

- | | | |
|--|--|--|
| Annamalai Building
IInd Floor, 19
Marshall road,
Chennai 600 008. | cost of Rs. 2140.84 lakhs. | 07 i.e for three years
only. |
| 6. St. Joseph's Leprosy
Patients Society, P.B
No. 2, Kalasapakkam
-606751,
Tiruvannamalai
District, Tamil Nadu. | Integrated Community
Development Project at
an estimated cost of Rs.
5.00 crores. | Rs. 5.00 crores for
Financial Years 2004-
05, 2005-06 and 2006-
07 i.e for three years
only. |
| 7. Programme Support
Unit Foundation (PSU
Foundation), 4- Rafi
Ahmed Kidwai Marg,
Cantonment,
Lucknow 226002. | An integrated project
on Water and Natural
Resources
Management;
improving livelihood
& quality of lives of
the rural poor with
reference to the forest
and forest fringe
dwellers in Uttar
Pradesh and West
Bengal at an estimated
cost of Rs.380.19
crores. | Rs. 380.19 crores
including a corpus
fund of Rs.45.62
crores for Financial
Years 2004-05, 2005-
06 and 2006-07 i.e for
three years only. |

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2004-2005, 2005-2006 and 2006-2007 in respect of projects or schemes mentioned above.

[No. 13/2005/F.No. NC-270/408/2004]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

का.आ. 82(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं० सां० आ० 602 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हेल्थेज इंडिया, सी-14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 द्वारा वृद्ध लोगों, कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध लोगों के लिए घर के प्रावधान, निराश्रित वृद्ध महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर लगाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था ; और जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में दिनांक 3 मई, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 405 (अ०) द्वारा और बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की

2005/1/1

अवधि के लिए दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 220 (अ०) द्वारा बढ़ा दिया गया था जिसे बाद में 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 553 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसकी लागत को 2000.00 लाख रुपए से 4000.00 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1046 (अ०) द्वारा संशोधित किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 11 वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 4000.00 लाख रु० से संशोधित करके 6500.00 लाख रुपए विनिर्दिष्ट करने की एक ओर सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्वारा हेल्पेज इंडिया, सी-14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 द्वारा वृद्ध लोगों, कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध लोगों के लिए घर के प्रावधान, निराश्रित वृद्ध महिलाओं के पुनर्वास, नेत्र शिविर लगाने की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है; और

(ख) दिनांक 12 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं० सां० आ० 602 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 12 के सम्मुख कॉलम (4) में अनुमोदित की गई अधिकतम लागत से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द “ केवल 4000.00 लाख रुपये ” के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द “ 6500.00 लाख रुपये ” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 14/2005/पत्र० सं० एन०सी०-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2005

S.O. 82(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 602(E) dated the 12th August, 1993 issued under clause (b) of the Explanation to section 35 AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12, the project or scheme for Medical care to old persons leprosy and cancer patients, provision of home to old persons, rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps, by Helpage India, C-14, Qutub Institutional Area, New Delhi – 110016, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O. 405(E) dated the 3rd May 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996-97 which was

extended further vide notification number S.O.220(E) dated the 16th March, 1998 for period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.553(E) dated the 20th June, 2001 for period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was also amended notification number S.O.1046(E) dated the 18th October, 2001 to enhance the cost from Rs.2000.00 lakhs to Rs.4000.00 lakhs;

And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond eleven years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from Rs.4000.00 lakhs to Rs.6500.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of, read with clause (b) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- (a) hereby specifies the scheme or project for Medical care to old persons, leprosy and cancer patients, provision of home to old persons, rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps which is being carried out by Helpage India, C-14, Qutub Institutional Area, New Delhi – 110016 as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004-2005; and
- (b) further amends the said notification number S.O. 602(E) dated the 12th August, 1993, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 12, in column (4) relating to maximum cost for which approved, for the letters, figures and word “ Rs.4000.00 lakhs” the letters, figures and word “Rs.6500.00 lakhs” shall be substituted.

[No. 14/2005/F.No. NC-270/408/2004]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)